

INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED

Corporate Identity Number: L74899DL1984PLC019218
Regd Office: MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi – 110002

Phones: 41520070 Fax: 41503479

Website: www.indialease.com E-mail: info@indialease.com

GSTIN: 07AAACI0149R1ZB

No. BSE/2023-2024/043

February 15, 2024

The Secretary,
Bombay Stock Exchange Limited,
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Company Code: 500202

Re: Copy of press release of Postal Ballot Notice

Dear Sir,

In terms of Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we are enclosing herewith a scanned copy of Postal Ballot Notice dated February 15, 2024 published in the newspapers viz, "The Financial Express" (English) and " Jansata "(Hindi) both on Thursday, the February 15, 2024.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For India Lease Development Limited

ROHIT MADAN | Digitally signed by ROHIT Digitally signed by ROHI

Rohit Madan Manager, Company Secretary & CFO ACS: 13636

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

Amount in Lacs

INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED

Regd Office: MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi - 110002 Phone: 41520070, Fax No.:41503479

Website:www.indialease.com, E-mail:info@indialease.com CIN:L74899DL1984PLC019218 | GSTIN:07AAACI0149R1ZB

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING

Members of India Lease Development Limited are hereby informed that pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and various Circulars issued by MCA in this regard (recent Circular No. 11/2022 dated 28.12.2022) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and other applicable laws, rules the company is seeking approval of members by Special Resolution for the appointment of Sh. Dinesh Agnani (DIN: 00591448) as Non Executive Independent Director for a period of five years from February 09, 2024 to February 08, 2029 through Postal Ballot by voting through electronic means ("remote e-voting") only.

The dispatch of Notice of Postal Ballot to the Members has been completed on February 14, 2024 only by email to those Members whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) and Depositories in compliance with MCA circulars and SEBI circulars and the same is available on the website of the Company https://www.indialease.com/ PostalBallot.html website of the BSE at www.bseindia.com and on website of CDSL at www.evotingindia.com

The company has appointed Anjali Yadav & Associates, Practising Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process through Postal Ballot in a fair and transparent manner. The company has engaged the services of CDSL to provide

remote e-voting facility. The company has fixed Friday, February 09, 2024 as the "Cut Off date" to ascertain the eligibility of members to vote by remote e-voting. The remote e-voting facility will be available during the following period:-

Commencement of Remote e-voting	Thursday, February 15, 2024 at 09:00 Hours IST
End of Remote e-voting	Friday, March 15, 2024 at 17:00 Hours IST
EVSN	240209002
	allowed beyond 05:00 p.m. on Friday,

March 15, 2024, and the e-voting module shall be disabled by CDSL and members will not be allowed to vote thereafter. In case of any queries regarding the E-voting facility, Members

may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under 'Help Section' or write an email to helpdesk.evoting@ cdslindia.com. Alternatively, the Members may also write an e-mail to the Company at info@indialease.com for any queries/information. The results of the Postal Ballot shall be announced within two

working days and shall be uploaded in the website of the company and will be communicated to BSE and CDSL. By order of the Board

For India Lease Development Limited Rohit Madan Manager, Company Secretary & CFO

No.

Kashipur-I Branch from time to time:

Name & Address of

Borrower/Guarantor/Mortgagor

1. Mamta Devi W/o Pramod Kumar

(Borrower/Mortgagor), C/o Sudhir

Kumar Sirswal BSNL Tower Colony,

Bazpur Road Kashipur U S Nagar,

Kashipur,pin 244713

Date: 15.02.2024

2795619000792 Housing Loan

Loan No.

Place: New Delhi ACS: 13636 Date: February 14, 2024

SOUTH Bank

Regional Office - Delhi

The South Indian Bank Ltd 3rd Floor, Plot No.21, 21/1, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi -110005, Phone-011 4233 1664/ 011 4512 866/ 7982865660 email-ro1008@sib.co.in/ gc1008@sib.co.in

Ref: DEL/CRD/SAR/45/2023-24 Date: 14.02.2024 E - AUCTION SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 read with proviso to Rule 8(6) and 9(1) of the Security Interest (Enforcement) [1] M/s. Savemax Wholesale Club [2] Mr. Vaibhav Singhal, S/o Sh. Gian

Private Limited, 401 'D' Mall, Netaji | Chand Singhal, 25/75 Shakti Nagar, Subhash Place, New Delhi - 110034 Delhi - 110007. also at 806-807, Udyog Vihar, Phase [3] Ms. Seema Gupta, W/o Sh. Gian Chand V, Gurgaon, Haryana - 122001 Singhal, 25/75 Shakti Nagar, Delhi - 110007

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower/guarantors that the below described immovable property/ies mortgaged to the South Indian Bank Ltd, Branch Karol Bagh (Secured Creditor), the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of The South Indian Bank Limited (Secured Creditor), will be sold on "as is where is" basis, "as is what is" and "whatever there is" condition on 11.03.2024 for recovery of an amount of Rs. 27,44,70,517.95 (Rupees Twenty Seven Crores Forty Four Lakhs Seventy Thousand Five Hundred Seventeen and Paisa Ninety Five Only) as on 13.02.2024 with future interest, costs and expenses etc. thereon due to The South Indian Bank Limited, Branch Karol Bagh (Secured Creditor),

Name of Property Owner	M/s Savemax Wholesale Club Private Limited
Description of property	All that part and parcel of commercial unit no.A-42, admeasuring super area 2806 sq. ft on Atrium Floor of commercial complex known as "Parker Mall" situated at G.T. Road, N.H. 1, Sector-62, Kundli, Sonepat, Haryana morefully described in conveyance deed bearing no. 2853 dated 21.11.2016 registered with Sub – Registrar-Rai, Sonepat Haryana, owned and possessed by M/s. Savemax Wholesale Club Private Limited -bounded on the North: Passage & Unit No. A-37, South: Side Set Back /Drive way, East: Unit No. A-41, West: Unit No. A-43.
Reserve Price	Rs. 1,13,64,300.00/- (Rupees One Crore Thirteen Lakhs Sixty Four Thousand Three Hundred Only)
Earnest Money Deposit (EMD)	Rs. 11,37,000/- (Rupees Eleven Lakhs Thirty Seven Thousand Only) EMD shall be deposited on or before 08.03.2024 by 05.00 PM
Bid incremental amount	Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only)
Encumbrances known to the Bank	To the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance with respect to the mortgaged property. The intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, maintenance charge, land use, statutory dues, electricity charges etc. and title of property and should inspect and satisfy themselves prior to submission of bid.
Date and time of E-auction	11.03.2024 from 11.00 AM to 11.30 AM (with 5 minute unlimited auto extensions till sale is concluded)

South Indian Bank Ltd, (Secured Creditor) website i.e. www.southindianbank.com Details also available at https://bankauctions.in. For any further clarification with regards to inspection of property, terms and conditions of

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in web portal

the e-auction or submission of bids, kindly contact South Indian Bank Ltd on 7982865660 (contact number). Date: 15.02.2024 Place: New Delhi AUTHORISED OFFICER

A Government of India Undertaking

Loan Amount

Rs. 20,00,000.00

Liability As on

Rs. 19,34,820.38

20.11.2023

Rate of Interest

(including 2% Penal)

10.55%

Name of Title

Holder

Smt. Mamta Devi W/o

Shri Pramod Kumar

Authorised Officer

केनरा बैंक Canara Bank

Regional office, Haldwani Kusumkhera, near Balaji Banquet Hall, Cheenpur, Haldwani

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

That Smt. Mamta Devi W/o Pramod Kumar has availed the following loans/credit facilities from our Canara Bank,

Date of

Sanction

The above said loan/credit facilities are duly secured by way of mortgagor of the assets more specifically described in

the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by said borrower in our favour. Since you had

failed to discharge the liabilities as per the terms and conditions stipulated, the Bank has classified the debt as NPA on

18/11/2023. Hence, Bank had issued this notice to Borrower under Section 13(2) of the subject Act calling upon the

borrower to discharge the entire liability of Rs. 19,34,820.38 (As on 20.11.2023) with accrued and up-to-date interest and

other expenses, within sixty days from the date of the notice (20.11.2023), failing which Bank shall exercise all or any of the

rights under Section 13(4) of the subject Act. Further, Borrower/Guarantor/Mortgagor are hereby restrained from dealing

with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent of the bank.

This is without prejudice to any other rights available to the bank under the subject Act and/or any other law in force. The

attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem

the secured assets. The demand notice had also been issued to Borrower/Guarantor/Mortgagor on 20.11.2023 by

SCHEDULE

Details of Security Assets

Shri Sudhir Kumar Sirswal S/o Manohari Lal (Guarantor), BSNL Tower Colony, Bazpur Road Kashipur, Kashipur, Pin 244713.

Brief Description of Immovable Property/ies

Residential house in the name of Mamta Devi W/o Pramod Kumar

situated at Village Gangapur Gussain(Apna Ghar) Tehsil kashipur,

Registered Post to the last known address available in the Branch record, which was return to the bank.

25 feet wide, South: Villa No. 114.

20/02/2019

सिंडिकेट Syndicate

Nature of Loan/Limit

"IMPORTANT"

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any

manner whatsoever.

📵 թոь Housing Ph: 011-23357171, 23357172, 23705414, Website: www.pnbhousing.com BRANGH OFFICE: #307 α 306, 310 F1001 Commercial Complex, Cyber Heights, Gomit Nagar, Luckhow- 220010 Finance Limited POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice/s on the date mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of

ga. Office : 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Deini-110001,

notice(s)/ date of receipt of the said notice/s. The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account.

l b∈	The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd., for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.									
S. No	Loan Account No.	Name of the Borrower/Co- Borrower/Guarantor	Demand Notice Date	Amount Outstanding	Date of Possession Taken	Description Of The Property Mortgaged				
1.	0522/990775 B.O.: LUCKNOW	(Co-Borrower)	07/11/2023	Fourteen Lakh Thirty One Thousand Seven Hundred Sixty Four & Paise Seventy Three Only) as on 07/11/2023		273/1, Village Síthaura Measuring 76.08 Sq Metre . Bareilly , Uttar Pradesh North: Khet Babu Ram, South: Plot Jaya, East: Road 12 Feet, West: Road 12 Feet Wide				
P	LACE:- LUC	KNOW, DATE:- 13.0	12.2024	AUTHOR	ZED OFFIC	CER, PNB HOUSING FINANCE LTD.				

APOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN: L74899DL1983PLC016713; Ph. No: 0120-;4372849 E-mail: apporvaleasing@gmail.com; Website: www.apoorvaleasingfinance.com Regd. Off: Block-34, House no. 247, Trilokpri, Delhi-110091

Corp. Off:C-1/9. Sec-31. Noida. Uttar Pradesh-201301 Extract of Standalone and consolidated Financial Results for the Quarter and nine month ended on 31st Dec., 2023

Particulars Consolidated Standalone Quarter Ended Year to date Quarter Ended Quarter Ended Year to date Quarter Ended on 31.12.2023 on 31.12.2023 on 31.12.2023 on 31.12.2023 on 31.12.2022 on 31.12.2022 Unaudited Uanudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited 362.70 378.34 138.62 92.60 138.62 92.60 62.24 119.39 297.85 62.36 119.33 313.28 119.39 297.85 62.36 119.33 3.28 62.24

Total Income from Operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Net Profit / (Loss) for the period after tax 89.34 222.89 46.67 89.30 228.55 46.58 (after Exceptional and/or Extraordinary 61.63 75.55 224.08 58.98 75.76 222.41 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income 1,997.49 1,997.49 1.997.49 1.997.49 1,997.49 1.997.49 Paid-up equity share capital [Face value Rs. 10 per share] Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 0.45 1.12 0.23 0.45 1.14 Basic: 0.23 0.23 Diluted: 0.45 0.23 0.45 1.14 1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the three months ended and nine month ended on 31st December, 2023

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and consolidated Financial Results for the three months ended on 31st December, 2023 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.in and the Company's website www.apoorvaleasingfinance.com.

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited **Atul Singh Tyagi**

Date: February14, 2024 Managing Director Place: Noida DIN: 01335008

केनरा बैंक Canara Bank A Government of India Undertaking

Regional office, Haldwani Kusumkhera, near Balaji Banquet Hall, Cheenpur, Haldwani DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 That Shri Jaspal Singh S/o Shri Mohan Singh has availed the following loans/credit facilities from our Canara Bank,

Bajpur-I Branch from time to time:

Liability As on Rate of Interest Date of Loan No. Nature of Loan/Limit Loan Amount No. 29.12.2023 (including 2% Penal) Sanction Rs. 10,00,000.00 Rs. 10,11,299.97 3486619000080 10/01/2017 **Housing Loan** 13.40%

The above said loan/credit facilities are duly secured by way of mortgagor of the assets more specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by said borrower in our favour. Since you had failed to discharge the liabilities as per the terms and conditions stipulated, the Bank has classified the debt as NPA on 09/01/2024. Hence, Bank had issued this notice to Borrower under Section 13(2) of the subject Act calling upon the borrower to discharge the entire liability of Rs. 10,11,299.97 (As on 29.12.2023) with accrued and up-to-date interest and other expenses, within sixty days from the date of the notice (10.01.2024), failing which Bank shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act. Further, Borrower/Guarantor/Mortgagor are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent of the bank. This is without prejudice to any other rights available to the bank under the subject Act and/or any other law in force. The attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The demand notice had also been issued to Borrower/Guarantor/Mortgagor on 10.01.2024 by

Registered Post to the last known address available in the Branch record, which was return to the bank.

Details of Security Assets Name & Address of Name of Title Brief Description of Immovable Property/ies Borrower/Guarantor/Mortgagor Holder Shri Jaspal Singh & 1. Shri Jaspal Singh (Borrower/ Residential Land & Building in the name of Shri Jaspal Singh S/o Shri Beer Singh Shri Mohan Singh & Shri Beer Singh S/o Shri Mohan Singh Mortgagor) S/o Shri Mohan Singh situated at Village Raita, Tehsil Bajpur, Dist U S Nagar bearing Khata No. 00034, Khasra Village- Raita Bhikampuri, PO- Fauzi No. 86/1/2 Min measuring 6806 Square feet or 632.52 Square meters. Boundaries: Colony, Tehsil Bajpur, Distt. U S Nagar East: land of Seller, West: River, North: 5 meter wide Rasta, South: Land of Seller. Pin:262401

SCHEDULE

2. Shri Beer Singh (Guarantor/Mortgagor) S/o Shri Mohan Singh, House No. 39, Village Raita Bhikampuri, PO- Fauzi Colony Tehsil Bajpur, Distt. U S Nagar, Pin- 262401

Date: 15.02.2024 Place: Haldwani, Distt. Nainital **Authorised Officer**

केनरा बैंक Canara Bank A Government of India Undertaking

Regional office, Haldwani Kusumkhera, near Balaji Banquet Hall, Cheenpur, Haldwani DEMAND NOTICE Annexure-2A NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

That Smt. Pooja D/o Shri Banwari Lal & DINESH has availed the following loans/credit facilities from our Canara Bank, Rudrapur Branch from time to time:

SI. No.	Loan No.	Nature of Loan/Limit	Date of Sanction	Loan Amount	Liability As on 12.12.2023	Rate of Interest (including 2% Penal
1.	160000376070	Home Loan	03/12/2021	Rs. 19,00,000.00	Rs. 19,51,461.00	11.45%
2.	164001613470	Home Loan Secure	09/12/2021	Rs. 1,37,790.00	Rs. 1,33,529.00	11.50%
3.	164003483878	Home Loan Secure	09/06/2023	Rs. 6,00,000.00	Rs. 6,18,062.78	11.35%

The above said loan/credit facilities are duly secured by way of mortgagor of the assets more specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by said borrower in our favour. Since you had failed to discharge the liabilities as per the terms and conditions stipulated, the Bank has classified the debt as NPA on 29/11/2023. Hence, Bank had issued this notice to Borrower under Section 13(2) of the subject Act calling upon the borrower to discharge the entire liability of Rs. 27,03,052.78 (As on 12.12.2023) with accrued and up-to-date interest and other expenses, within sixty days from the date of the notice (12.12.2023), failing which Bank shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act. Further, Borrower/Guarantor/Mortgagor are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent of the bank. This is without prejudice to any other rights available to the bank under the subject Act and/or any other law in force. The attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The demand notice had also been issued to Borrower/Guarantor/Mortgagor on 12.12.2023 by Registered Post to the last known address available in the Branch record, which was return to the bank. SCHEDULE

Details of Security Assets Name & Address of Name of Title Brief Description of Immovable Property/ies Borrower/Guarantor/Mortgagor Holder Pooja D/o Shri Pooja D/o Banwari Lal (Borrower EMT of residential house situated at village Barirai, Tehsil Gadarpur, Banwari Lal Dist U S Nagar bearing Survey No. 00820 Varga 1 Ga, Khasra No. 1401 /Mortgagor), 301 Ward No 08, Min measuring 840 square feet or 78.07 square meter. Boundaries - East: A rasta 3.962 Rampura, Rudrapur, U S Nagarmeter (13 feet) & Nahar, West: Land of Diwakar Rana, North: Land of vendor, South: 263153. Land of vendor.

Smt. Neetu W/o Bhagwan Das (Guarantor), Ward No 08 Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar-263153. 3. Dinesh (Co Borrower), 191 Ward No 8,

For, JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED Rampura, Rudrapur, U S Nagar Pin - 263153. **Authorised Officer** Place : Haldwani, Distt. Nainital Date: 15.02.2024

LOGIX CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED CIN: U74120DL1992PTC050460 istered Office: House No. 68, Ground Floor Block-C, Pkt-7, Sector-8, Rohini, Naharpur, North West Delhi, Delhi-110085 E-mail: info@logixcorporate.com **PUBLIC NOTICE**

In compliance with the Para 5 of Notification No. DNBR. (PD) 029/CGM (CDS)-2015 issued by Reserve Bank of India on July 09 2015, notice is hereby given that Logix Corporate Solutions Private Limited ('the Company'), a company incorporated under the Companies Act, 1956 and registered with the Reserve Bank of India (the 'RBI') vide Certificate Number B-14.02247 as a Non Deposit taking Non-Banking Finance Company, having its Registered office situated at House No. 68, Ground Floor Block-C, Pkt-7, Sector-8, Rohini, Naharpur North West Delhi, Delhi-110085 India, is intended to change in management of the company by appointing Mr. Pradeep Singh Solanki (DIN: 05279661) as a new director. The above Notice is being given pursuant to RBI Circular DNBR, (PD) CC No.065/03.10.001/2015-16 dated July, 09 2015 and other relevant Regulations. The company has already obtained the prior approval for change of Management from RBI, Delhi vide letter No. P.V.(N.D.) S.No. S866/NBFC-BL/05.12.060/2023-24. Any clarification/ Objection in this regard

may be addressed to Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India. Sansad Marg, Delhi-110001 within 30 days from the date of publication of this notice stating therein the nature of interest and grounds of objection. This public Notice is being issued by the Company.

For Logix Corporate Solutions **Private Limited** Mr. Chetan Kumar Date: 14.02.2024 (Director Place: New Delhi

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MYCOZOOM BIOTECH INDIA PRIVATE LIMITED

	RELEVAN	IT PARTICULARS
1.	Name of Corporate Debtor	Mycozoom Biotech India Private Limite
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	08.03.2019
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	RoC - Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U24100DL2019FTC347036
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	Regd. Off.: 23/7, Second Floor, Old Rajender Nagar, Delhi – 110060
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	05.02.2024 (Order recd. on 12.02.2024)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	03.08.2024
8.	Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	M/s RR Insolvency Professionals LL Reg. No.: IBBI/IPE-0056/IPA-1/2022-23/50009
9.	Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board	Reg. Add.: C-51, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad-2010 Email: ipreshma@rrinsolvency.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	Add.: II/E-64 Nehru Nagar, Ghaziabad, U.P2010 Email: ibc.mbipl@gmail.com and cc: rakesh.jindal@rrinsolvency.in
11.	Last date for submission of claims	26-02-2024
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	NA
13.	Names of insolvency professionals identified to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class)	NA.

14. (a) Relevant forms and (b) Details of authorized representatives Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Mycozoom Biotech India Private Limited on 05.02,2024

(a) Weblink: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

The creditors of Mycozoom Biotech India Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 26.02.2024 to the interim resolution professional at the address mentioned against

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

CA IP Rakesh Jindal

financiale

For and on behalf of RR Insolvency Professionals LLP Regn.No.: IBBI/IPE-0056/IPA-1/2022-23/50009 Date: 15.02.2024 AFA No.: AA1/50009/02/191224/20007 | Valid till : 19/12/2024 | Place: Delhi

JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED

Place: Haldwani, Distt. Nainital

CIN: L74999DL1982PLC014411 Registered Office: 208, Magnum House-II, Karampura Community Centre,

New Delhi-110015, **Ph**: 011-45090162

Dist. U S NagarBearing House No. 129, Khata No. 109, Khasra No. 158/8/1 Min measuring

1080 square feet. Boundaries - East: House No. 130, West: House No. 128, North: Rasta

E-mail Id: jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, Website: www.jtel.co.in

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE **QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023**

		D.	Rs. in Thousand	ds except EPS
SI. No.		Current Quarter ended	Previous Quarter ended	Previous Year ended
	PARTICULARS	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		(Unaudited / Reviewed)	(Unaudited / Reviewed)	(Audited)
1	Total Income from operations	17,935.00	1,443.97	8,069.89
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(21,441.58)	(1,402.78)	(6,875.89)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After Exceptional and / or Extraordinary items)	(21,441.58)	(1,402.78)	(6,875.86)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (After Exceptional and / or Extraordinary items)	(21,851.86)	(1,401.32)	(6,429.45)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (After Tax)	(21,893.89)	(1,412.81)	(6,485.48)
6	Equity Share Capital	50,816.40	50,816.40	50,816.40
7	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance sheet of previous year	62,386.88	68,872.37	62,386.88
8	Earnings Per Share (FV of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations)			
	a) Basic b) Diluted	(4.31) (4.31)	(0.28) (0.28)	(1.28) (1.28)

of Director in their meeting held on February 14, 2024 after being reviewed and recommended by the Audit The Statutory Auditors have reviewed these financial results pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. Segment reporting as defined in Accounting Standard -17 is not applicable as the Company is in engaged in

The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Nine Months Un-Audited Financial Results as per IND AS compliant filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly and Nine Months Unaudited Financial Results as on 31.12.2023 are available on Company's website, www.itel.co.in and Stock Exchange website, www.msei.in

(Praveen Kumar Goel) Place : New Delhi Director

Date: 14, February 2024

New Delhi

DIN: 00021153

फॉर्म नंबर आईएनसी —25ए

सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा क्षेत्रीय निदेशक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41

मिस सोनिका लाइफ साइंसेज लिमिटेड के मामले में (सीआईएन न्33110क्स्2011च्स्219209) का पंजीकृत कार्यालय 801, विश्व सदन बिल्डिंग जिला केंद्र

जनकपुरी, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, भारत, 110058 है। इसके द्वारा आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी उपरोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का इरादा रखती है और पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित होने की इच्छुक है। कंपनी को इस तरह के रूपांतरण को प्रभावी बनाने में सक्षम करने

के लिए मंगलवार, 23 जनवरी को आयोजित असाधारण आम बैटक मे की थी । कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से भेज सकता है या भेज सकता है। क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर एक प्रति

> आवेदक के लिए और उसकी ओर से सोनिका लाइफ साइंसेज लिमिटेड सोनिका जसूजा डीआईएनः 00977663

डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकप्री, पश्चिमी दिल्ली,

नई दिल्ली, भारत, 110058

पंजीकृत कार्यालय का पताः 801, विश्व सदन बिल्डिंग

दिनाकः 14/02/2024 स्थानः नई दिल्ली

इन्डो गल्फ इंडस्टीज लिमिटेड

CIN: L7490DL1981PLC011425 4237/11, II रा तल, नरेन्द्र भवन, 1, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 वेबसाइटः www.indogulfind.com ई-मेलः rj.headoffice@gmail.com 31.12.2023 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का सार सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1) (बी)

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
	31.12.2023 (अनंकेक्षित)	31.12.2022	31.3.2023
प्रचालनों से कुल आय	3843.72	4921.71	20695.38
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर तथा अपवादित मदों से पूर्व	(99.29)	161.03	677.68
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	(99.29)	161.03	677.68
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट मर्दों के बाद)	(74.30)	154.13	643.69
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (लाभ/हानि) त अन्य व्यापक आय (कर से बाद) लाभ/(हानि) से शामिल)	(74.30)	154.13	643.69
इक्विटी शेयर पूंजी	95.67	95.67	95.67
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर जैसा कि पूर्व वर्ष अंकेक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है।	क -	-	-
आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (तिमाही आंकडों के लिये वार्षिकीकृत नहीं)			
मूल एवं तरल (रु.)	(0.78)	1.61	6.73

1) उपरोक्त सेबी (सचीयन दायित्व एवं अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वार्षिक वित्तीय कंपनी परिणामों प्रारूप का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट अर्थार (www.indogulfind.com) पर उपलब्ध है।

)कम्पनी के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक)(संशोधन) नियमावली, 2016 द्वारा यथा संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार तैयार किया गया है। 1 अप्रैल, 2015 की संक्रमण तिथि के साथ 1 अप्रैल, 2016 से कंपनी इंड ए एस अपनाई है एवं तदनुसार इन परिणामों (31 दिसम्बर, 2016 को समाप्त अवधि सहित) को इंड ए एस 101 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

> निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर रं इन्डो गल्फ इंडस्ट्रीज शिवानी नैथानी DIN: 07881480

VANI COMMERCIALS LIMITED

162-A. Second Floor, Sector-7, Dwarka, Palam Village New Delhi- 110045 CIN: L74899DL1988PLC106425 Website: www.vanicommercials.com; Email: info@vanicommercials.com, Ph. +91-9560066230

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2023

				ks, in Laki
SI, Vo.	Particulars	3 months ended 31.12.2023	Corresponding 3 months ended 31.12.2022	12 months ended 31.03,2023
	Total Income from Operations	125.54	45.19	215.23
	Net Profit / (Loss) for the period (before fax and Exceptional items)	0.14	3.08	-18.14
	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items).	0.14	3.08	-18.14
	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	0.14	3.08	-29.89
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0,14	3.08	-29.89
	Equity Share Capital	1174.06	1174,06	1174.06
	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	0.00	0.00	0.00
	Earnings Per Share (of 710/- each):			
	1. Basic (Rs.):	0.001	0.03	-0.25
	2. Diluted (Rs.) :	0.001	0.03	-0.35

The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 14th February, 2024. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.vanicommercials.com) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com).

The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and the related Report does not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter ended 31st December, 2023 which needs to be explained. For Vani Commercials Limited

Vishal Abrol Managing Director

Date: 14th February, 2024 Place: New Delhi

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सीआईएनः यू६६९०० डीएल २०२०पीएल सी ३६६०२७

पंजीकृत कार्यालयः 501, साल्कॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली– 110025 कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नार्ट शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋण खाता संख्या 100741006171 के लिए दिनांक 04-09-2023 एक एक मांग सूचना जारी किया। जिसमे 1. श्री राहुल राणा (उधारकर्ता) निवासी मकान नंबर 293, गली नंबर 7, सदरपुर, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201303, 2. श्री राहुल सक्सेना (सह-उधारकर्ता) निवासी मकान ००, सदरपुर, नोएडा सेक्टर ४५, उत्तर प्रदेश २०१३०३, ३. श्री सुखपाल (गारंटर / बंधक) पुत्र रिशपाल निवासीः ग्राम विशोरा, तहसील दादरी जिला गाजियाबाद यूपी 203207 नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 23,83,000 / – (तेईस लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा है।उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता(कों) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने व्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के सुरक्षा के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 का उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 23 फरवरी 2024 को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन 23,83,000/- रुपय (तेईस लाख तिरासी हजार रूपये मात्र) और उस पर ब्याज की राशि के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस

बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा। सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की घारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण संपत्ति पर साम्यिक बंधकः आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 34 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 112 पर स्थित, ग्राम सदरपुर, तहसील दादरी जिला गाजियाबाद (अब नोएडा सेक्टर 45 में) उत्तर प्रदेश में स्थित है। बही नंबर 1. जिल्द नंबर 700. पेज नंबर 130 / 131 क्रमांक नं. 108 दिनांक 20-01-1991 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज, श्री सखपाल पत्र रिशपाल के नाम

पर है। चौहददी :-		
उत्तर	अन्य का प्लॉट	पश्चि
दक्षिण	अन्य का प्लॉट	पूर्व

दिनांकः 13-02-2024 हस्ता / — प्राधिकृत अधिकारी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड स्थानः नोएडा

प्रपत्र सं. आईएनसी–19

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के अनुसरण में] एतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पेशावरी ऐण्ड सोमा गुप्ता फाउण्डेशन द्वारा कम्पनी अधिनिवम, 2013 की धारा 8 की उप-धारा (4)(11) के अनुसरण में, एक आवेदन राजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली एवं हरिवाणा के समक्ष कम्पनी अविनियम. 2013 की घारा 8(s) के अधीन इसको जारी किया गया लाइसेन्स प्रतिसंहरित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अन्य का प्लॉट

सदक 8 फीट

लाइसेन्स के निरसन पश्चात कम्पनी को अपने नाम में फाउण्डेखन के ख्यान पर "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द जोड़ना होगा। 2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(4)(1)) के अधीन प्रावधानों के अनुसार लाइसेन्स के प्रतिसंहरण के पश्चात प्रधान उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :

1. लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा के सुधार पर फोकस के साथ सभी लोगों को स्वस्थ, उत्पादक जीवन जीने में सहायता करना और उनको स्वयं को गरीबी से ऊपर उठाने का अवसर प्रदान करना। 2. शिक्षा, विशेषकर महिलाओं, समाज के कमजोर वर्ग, को प्रोत्साहन देने की गतिविधियां संचालित करना, जिनमें

महिलाओं, बुजुर्गों, शारीरिक, भावनात्मक तथा / अथवा बौद्धिक विशेष जरूरतमंदों तथा भिन्न रूप से सक्षम जन के कौशल की वृद्धि और रोजगार पैदा करने के लिए आजीविका वर्द्धन परियोजनाओं का संचालन शामिल है। 3. भूख, गरीबी तथा कुपोषण को समूल नष्ट करना, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें निवारक स्वास्थ्य देखमाल और सफाई तथा निरापद पेय जल उपलब्ध कराना शामिल है। जरूरतमंद महिलाओं तथा बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना, जिसमें स्वास्थ्य क्लीनिक और उपचार

विशेष शिक्षा, स्कूलों, वयस्क शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा व्यावसायिक कौशल की वृद्धि विशेष रूप से बच्चों,

केन्द्रों की ल्यापना शामिल है। विभिन्न चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना जैसे कि नेत्र देखमाल, मातृत्व, बाल देखमाल तथा संचारी रोगों के

प्रतिरक्षण के स्वास्थ्य और जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। महिलाओं तथा अनाथों के लिए आश्रयस्थलों तथा होस्टल्स की स्थापना करना ; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, दिवस देखमाल केन्द्रों और ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना और उपाय करना जिससे कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना की जा रही असमानता को कम किया जा सके।

 ग्रामीण खेल-कूद, योग, राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त खेलों को प्रोत्साहित करना, संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं को प्रोत्साहन देना। संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आवासीय और गैर-आवासीय,

7. ट्रस्ट के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक चल या अचल सम्पत्ति अस्थायी वा स्थायी रूप से अविग्रहीत, क्रय करना अथवा अन्य रूप में स्वाधिकृत करना अथवा ऋण पर वा पट्टे पर या किराए

पर लेना। पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण, पौधारोपण, परती भूमि प्रबंधन के लिए कार्य करना । हमारे राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों के परिस्क्षण के लिए तथा क्षेत्र का पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखने के लिए लोगों को समझदार एवं

9. बुनियादी विकिरसा सुविधा, सफ़ाई, सामान्य स्वास्थ्य देखमाल और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराना, जो जनता के लिए किसी प्राकृतिक और मानवनिर्मित आपदा के कष्टों तथा वेदना से उबरने तथा उनका पुनर्वास

सुविधाजनक बनाने में सहायताप्रद हो। 10. फाउण्डेशन के किसी भी उददेश्य के साथ संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए प्रकाशनों का उपक्रम करना तथा प्रोत्साहन देना और ढिजिटल मीढिया विकसित करना।

। प्रस्तावित कम्पनी के प्रारूप संस्था ज्ञापन और अंतर्निवमों की प्रति 2ई/207, द्वितीय तल, कैक्सटन हाउस, झंढेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 में देखी जा सकती है

एतदहारा सूचना दी जाती है कि कोई नी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगम वा निकाय निगम, जिसको इस आवेदन पर आपित है, अपनी आपित की सूचना रजिस्ट्रार, दिल्ली को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के मीतर, रजिस्टार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली, चतर्च तल, आईएफसीआई टावर, 61—नेहरू प्लेस, एनडी—19 को संबोधित पत्र द्वारा दे सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक को 2ई/207, द्वितीय तल, कैक्सटन हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 के पर्ते पर प्रेषित करनी होगी।

आवेदक का नाम पेशावरी ऐण्ड सोमा गुप्ता फाउण्डेशन रवि शर्मा

दिनांकित 14 फरवरी, 2024

Particulars

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit/(Loss) for the period after tax after exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive

Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year

Earnings Per Share (EPS) (for continuing

and discontinued operations)

Total Income from Operations (Net) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)

निदेशक DIN: 00004567

JOHN OAKEY AND MOHAN LIMITED

CIN:L15549DL1962PLC003726

Tel.: 0120-2657298

E-Mail: oakeymohan@gmail.com. **Website**: www.oakeymohan.in

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023

Quarter

ended

30.09.2023

Unaudited

296.79

(61.45)

(61.45)

(61.45)

(57.78)

(12.70)

(12.70)

Quarterly and Nine Months ended Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and on

48.38

Quarter

ended

31.12.2022

Unaudited

376.71

(25.75)

(25.75)

(19.27)

(22.40)

48.38

(3.98)

(3.98)

Quarter

ended

31.12.2023

Unaudited

341.11

(14.55)

(14.55)

(14.55)

(6.13)

48.38

(3.01)

(3.01)

लॉजिक्स कंपनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड सीआईएनः U74120DL1992PTC050460 पंजीकृत कार्यालयः मकान नंबर 68, ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक—सी, पाकेट—7, सैक्टर—8, रोहिणी, नाहरपुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110085

स्थानः देहरादून

सार्वजनिक सूचना

ईमेल : info@logixcorporate.com

अधिसूचना सं 11/2009-10 के पैरा 5 के प्रनुपालन में डीनबीआर (पीडी) 029 / सीजी_.म (सीडीएस)–2015 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 09 जुलाई 2015 को जारी की गई, एतदवारा सूचना दी जाती है कि लॉजिक्स कॉर्पोरेट सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी"), कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के साथ प्रमाणपत्र संख्या बी—14. 02247 के तहत गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान नंबर 68, ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक-सी, पाकेट-7, सैक्टर -8, रोहिणी, नाहरपुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110085 भारत में स्थित है, कंपनी प्रबंधन में श्री प्रदीप सिंह सोलंकी (डीआईएन: 05279661) को एक नए, निदेशक के रूप में नियक्त करने की इच्छक है। उपर्युक्त नोटिस आरबीआई परिपत्र डीनबीआर, (पीडी) सीसी, सं. 065 / 03.10001 / 2015-16 दिनांक 09, 2015 और अन्य प्रासंगिक विनियमों के अनुसरण में दिया जा रहा है। कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक, दिल्ली से प्रबंधन परिवर्तन के लिए पत्र संख्या पी.वी.(एनडी) \$866NBFC-BL/ 05.12.080/2023-24 द्वारा पहले ही पूर्व अनुमोदन

इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण/आपत्ति जिसमें इरादे की प्रकृति और आपत्ति के आधार का उल्लेख किया गया हो, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, ६, संसद मार्ग, दिल्ली-110001 को संबोधित की जा सकती है। यह सार्वजनिक सूचना कंपनी द्वारा जारी की जा रही है।

लॉजिक्स कॉर्पोरेट सॉल्य्शंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए

हस्ता/-श्री चेतन क्मार दिनांक: 14.02.2024 स्थान: नई दिल्ली (निदेशक)

''प्रपत्र सं. आईएनसी-26'

[कम्पनी(निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिर्वतन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 नियम

ब्रिओ वेट फार्मा प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 26, ख. नं. 30/13, भू तल, ग्राम सभा विलेज, नांगली पूना, उत्तर पश्चिम, दिल्ली-110036 में है, के

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि ''दिल्ली

30 के उप-नियम (5) के क्लॉज

(ए) के मामले में

राज्य'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 29.01.2024 को आयोजित वार्षिक/ आसाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एसोशिएशन के परिर्वतन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिरिनयम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिर्वतन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों को उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रिय निदेशक के पते ''पीठ अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र पीठ, बी-ब्लॉक पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: ब्रिओ वेट फार्मा प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 26, ख. नं. 30/13, भू तल, ग्राम सभा विलेज, नांगली पुना, उत्तर

कृते एवं के लिये, तिथि: 15.02.2024 ब्रिओ वेट फार्मा. प्राईवेट लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली हस्ता/- अजय कुमार निदेशक, DIN 06661094

Nine

Months

Ended

31.12.2022

Unaudited

1,183.16

(70.73)

(70.73)

(52.93)

(51.41)

(10.94)

(10.94)

For And on behalf of the board

48.38

(Rs. in Lacs

Year

Ended

31st March

2023

Audited

1,507.34

(131.68)

(131.68)

(96.74)

(79.32)

1,708.17

(20.00)

(20.00)

Rajan Datt

DIN: 00229664

Director

48.38

पश्चिम, दिल्ली-110036

Nine

Months

Ended

31.12.2023

Unaudited

996.49

(120.97)

(120.97)

(120.97)

(103.90)

48.38

(25.00)

(25.00)

मान एल्युमिनियम लिमिटेड

CIN: L30007DL2003PLC214485 पंजीकृत. कार्यालयः 4/5, फर्स्ट पत्नोर, असक अली रोढ़, नई दिल्ली-110002

फोन: 011-40081800, वेक्साइट: www.maanaluminium.com, ईमेल: info@maanaluminium.in 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम (क. लाखों में ईपीएस को छोडकर)

	Y		समाप्त विमाई	T .	समाप्त	समाप्त वर्ष		
那. स.	विवरण	31 दिस. 2023	30 सित. 2023	31 दिस. 2022	31 दिस. 2023	31 दिस. 2022	31 मार्च 2023	
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंके सित)	
1	प्रचालन सकल से कुल आय	21,297	29,530	18,962	71,563	55,098	81,385	
2	अपवादात्मक मदों और कर से पहले शुद्ध लाभ	1,001	1,064	1,875	3,422	4,767	6,703	
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाम	1,001	1,064	1,875	3,422	4,767	6,703	
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम	744	788	1,401	2,547	3,551	4,997	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	751	795	1,398	2,550	3,547	4,996	
6	इक्विटी शेयर पूंजी (दिसम्बर-23 को समाप्त तिमाही और नामाही के लिए प्रत्येक अंकित मूल्य 5/- रूपये और पिछली अवधि के लिए प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रूपये)	2,704	2,704	1,352	2,704	1,352	1,352	
7	प्रत्येक प्रति शेयर आय रू. 5 (तिमाहियाँ के लिए वार्षिककृत नहीं)							
	बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस	1.38	1.46	2.59	4.71	6.57	9.24	

स्थानः नर्ड दिल्ली

तिथिः 14 फरवरी, 2024

14 फरवरी, 2024 को आयोजित बैठक में 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए उपरोक्त वितीय परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

सेबी (सुधियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई उपरोक्त वितीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। सम्पूर्ण वितीय परिणाम www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.maanaluminium.com पर उपलब्ध है। कृते और बोर्ड की ओर से

(रविन्द्र नाथ जैन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता /-

DIN: 00801000

GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059674 Regd. Office: - The Capital Court, 6th Floor, OLOF Palme Marg, Munirka, New Delhi 110067 Email:- compliance@gogiacap.com, Website:- www.gogiacap.com, Contact no: 011-49418888 Extract of Un-Audited Financial Results for the third quarter and Nine months ended 31st December, 2023 Process in Lable

			(Figures in Lakhs				
S.	Particulars	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.03.2023		
NO	T artistrary	Quarter	Quarter	Year to date	Year ended		
1	Total Income from Operations	(3039.02)	(254)	(2123.14)	468.35		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(3151.78)	(381.78)	(2440.25)	87.08		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3151.78)	(381.78)	(2440.25)	87.08		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3151.78)	(381.78)	(2475.25)	68.85		
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(3151.78)	(381.78)	(2475.25)	68.85		
6	Equity Share Capital	632.11	632.11	632.11	632.11		
7	Reserves	96	88		4152.49		
8	Earnings Per Share (Face value Rs. 10/- each) - Basic & Diluted	-49.86	-6.04	-39.16	1.09		

Place: Delhi

Date: 14.02.2024

 The Unaudited standalone Financial Results for the guarter and nine months ended on 31 December, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14 February, 2024. The standalone Financial Results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013

The standalone financial results for the guarter and nine months ended on 31 December, 2023 detailed financial results are available on the Company's website www.gogiacap.com and have been submitted to the BSE Limited (www.bseindia.com), where the equity shares of the

Figures for the previous quarters/year are regrouped/rearranged, wherever found necessary to make them comparable with the current period.

The company has no subsidiary company.

For Gogia Capital Services Limited

Satish Gogia Managing Director

ई-नीलामी सुचना Regd Office: office no 4 First Floor Near Punjab National Bank Pocket E Market Mayur vihar phase 2 Delhi 110091 शाखा : U-59, नजदीक लक्ष्मी नगर मैट्रो स्टेशन गेट नं.-2, मदर डेयरी रोड, शकरपुर, दिल्ली-110092, फोन : 011.46021402

विलीय परिसंपतियों के प्रतिपृत्तिकरण एवं पुनर्मिर्मण एवं प्रवर्धन के तहत हैंक में भिरवी रखी नई अवन संगतित की विक्री के लिए ई-मीलमी विक्री सूक्ता सुखा हित अविनेवम, 2002, सुखा हित प्रवर्धन

) भिक्स, 2002 के भिक्स 8 (6) के प्रावसन के ताथ परित इसके द्वारा आम जनता की और विशेष तर से तथाकर्ती, साधकर्ती, नाएंदर को नीदिस दिया जाता है कि, केशव सबकारी बैंक सिमिटेंड के प्राधिकत अधिकारी। प्रतिमृतिकरण की धारा 13 (2) के तहत जारी नोटिस के माध्यम से उठाई नई मांग के अनुसार, यहां उदिलक्षित निम्नलिखित संपत्तियों का शीविक बच्चा से दिया था। निम्नलिखित उदण खातों में फिलीय परिसंपतियों का पुनर्मिनीण और सुरक्षा हित प्रवर्षन अधिनिक्षा, 2002 के तहत 'जैसा है जहां है, जैसा है जो है' के आधार पर इसे बेबने का अधिकार है। है, जो कुछ भी है वह है और बिना किसी परिणाम के आधार पर' बैंक की बताया तरि। और खाज तथा अन्य खाती की वसूबी के लिए जैसा कि वहां नीचे किसूत है और इसके परिणामस्वरूप बताया तरि। चुकाने में विपन्न रहने पर, अधिनियम की क्षारा 13(4) के साथ पठित नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी बैंक का बकाया कपूर्तने का प्रस्ताय करता है उक्त संपत्ति/संपत्तियों की बिकी से बकाया। नीये उरिलाखित संपन्तियों की किकी के प्रोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी: https://www-bankeauctions-com

कर्जदारों/जमानतीयों का नाम तथा पता	ईएमडी जमा के लिए अंतिम तिथि	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, अग्रिम धन	/ मांग की तारीख और कब्जा नोटिस	निरीक्षण का दिनांक एवं सम्ब	ई-नीलामी का दिनांक एवं समय	ईएमडी जमा खाता विवरण	मात्रा बोली वृद्धि छोटा।
उद्दारकर्ताः श्री. अमित गुप्ता पुत्र स्ट. अरुण कुमार सह-उद्यापकर्ता श्रीमते. मिशा गुप्ता प्रजी श्री अमित गुप्ता प्रेमी मिलारी- सकान संबर- FF-00. पहली मीठित प्रमी संबर- 16 संगर बाजर जस्मी नाए महें दिख्यी-110092 सर्व सी श्री अमित गुप्ता उत्यापकर्ता कर संबन्धी किया गुप्त स्वरूपकर्ता निवासी दुकान ने अभि का किया सम्प्रीत संबर मार स्वरूप स्वर्मान प्रकार स्वरूप किया-10092 संबर्ध संद्वार प्रमाण पहले स्वर्म स्वर्म का स्वर्म नाम्य मिला- क्रिया संवर्धकर्म स्वर्म स्वर्मी रोड रिस्सी-110092 संसर्ध संवर्धकर संद्वार स्वर्मी रोड रिस्सी-110092 संसर्ध संवर्धकर संवर्धकर संवर्धकरी-110092	वाहित्व 07/03/2024 अक्षम 440 व्यंचे नक	एक का जायसमान तथक दुकान का समिन उपका थ्रा नंतर के सुतार एक तपक सुते के की नाम 7 सीट ' 16 सीटा अमी किस्ट्र कार मेनकान 1040 वर्ग मीट इस के अधिकार के किना केवर कर तरह तका किस्सा नाक G-9 मिनांग जारी प्रताद नंतर। G-5 कार्य में साहर मोक 77 केव में बिहात है गांव स्वतपुर बात का G-कारण, जानी की आतारी नगर, इस बाग साहदूश, विकास का G-कारण, जानी की आतारी नगर, इस बाग साहदूश, विकास प्रताद नाकर साहदूश, वास	₹:1530000/-	लापिए 184-12-2022 लापिए 17-83-2023	नविद्धः 104/03/2022 स्थानः 1020 सने तरे स्थापनः 1020 सने तरे	समय सुबह 10.80 बजे	खाता संख्या 030100017501 लागार्थी का नामः बेस्टव शेवारी एंक लिमिनेड ई-मीलामी ईपमार्ड अईएमसी कोडः YESBOKESBO2 मेंक का नाम- यस बेंक शासा का नाम- बेस्टव शेवारी बेंक रि.	₹.10000 <i>l</i> -

https% www.bankeauclions.com के साथ स्वीपन आईही और जासाई के साध्या में। ईएसई निम्तीसीका साम संस्था में एमईएसई, आरडीवीएस के माध्या में एमईएसई। १००० (१००४) १००५ (१००५) जासाई का नाम-केबर साध्या में के जिम्रीके हैं मीजिन संस्थ अहिंग्यनी और: YESBOKESBO2 केंक का नाम जैस केंक जावता का नाम जैसर मारकारिक जिसिक्ट जा केंबर मारकारी कि विशेष्ट के जाव में निकार गए जिसाह बुसर के नाकम में निकारी हैंगाई। जाता मंबर 10000001901 निहास प्राप्त 1400वर्ग तक विशेक 107/03/2024 करवा क्यान है कि केठ ईसाड़ी लींग के करा में क्यीकर नहीं किए कार्यन । अवकार क्रेसीवायां को क्षेत्रविध । उसतीक क्रांति । असाव क्यानि क्रांति । असाव क्यानि । अवव क्यानि , खड़िया लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि की नवप्रमाणित प्रति और सत्यापन के जिल्ए उनकी मूल प्रति अपने साथ राखनी लाहिए।

2 इसक् बोलीवाता जिन्होंने ईएसडी जना बन दी है और रहें लेगिन आईडी और जासर्व बनने, हेट अपसोट जनने, लेली जमा जनने, ई-बोली जीवन पर जीवना आदि में सारक्षता की अवस्थवता है है रोहने रेसेना अवता नेनर्न नेती । इदिया आदेवेट निजीवेट ने नेनर्व के जन मकते हैं। तिमिरेट पेक्साइट InttoSV/Noww/bankeauctions.com. नामर्थ नाम भी अभिन नमार वीत नामर्थ नेपाइन नामर अध्य क्षीतः वामानिप/भ वाद्यवांच्यायः और, सामाने नीमाहरू नीमर। 12918911242526 होस्ते नव्यवादाः/इवनाववादारभवार ।और नोसीत संबी किसी भी भारन के लिए कार्य विकास कर्वतस्य जमारे नेपानिव अधिकारी ने सामाने व्यवस्थानिक स्वार्तिक विवास

इ. ई-बीताबी की प्रक्रिया के बाक्यम से जीवित सफल अवेदक को बिकी के दसी दिन ई-बीताबी बिकी कार्यवाही बंद होने जर तुंहा खरीद त्यारें। बना ७६ ईएसी बीतित जमा करना होगा। व्ययोक्त खंड र 1 में निर्वेशित अनुसार बोद । क्षेण तीर 15 दिन में जमा जरा हो जा गुणी। सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30/15 दिनों की विक्री सूचना

इसे उपर्युक्त पर ई-नीलामी बिक्की के आयोजन के बारे में उपरोक्त ऋण के उदारकर्ताओं, गारंखों को मुख्या हित प्रपर्तन नियम, 2002 की भारा (8(6)) नियम (9(1)) के तहत नेतिया के करा में भी माना जा सकता है। तरिया । उदारकर्ता, नाएंटरों की सीचित किया जाता है कि वे नीजानी की तारीख से पहले दिनाकित ब्याज और सहायक खर्जी के साथ उपर उत्तिखेखत राशि का भूगतम कोंट्रे ऐसा न करने पर संग्रीत को नीजान केन दिया जाएगा और खेश राशि जना कर दी जाएगी।। बकाया, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसूस किया जाएगा। प्राधिकत अधिकारीः केशव सहकारी बैंक लिमिटेड। दिनांक:

ILD इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः एमजीएफ हाउस, 4/17 बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002

फोनः 41520070, फैक्स नं.: 41503479 वेबसाइटः www.indialease.com. ईमेलः info@indialease.com

सीआईएनः L74899DL1984PLC019218 | जीएसटीआईएन: 07AAACI0149R1ZB पोस्टल बैलेट एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 और इस संबंध में एमसीए द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों (हाल ही के परिपत्र संख्या 11 / 2022 दिनांक 28.12.2022) के अनुसार और सेबी के विनियम 44 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) और अन्य लागू कानून, नियम कंपनी पोस्टल बैलेट के माध्यम से 09 फरवरी, 2024 से 08 फरवरी, 2029 तक पांच साल की अवधि के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से मतदान करके गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री दिनेश अगनानी (डीआईएन: 00591448) की नियुक्ति के लिए विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों की मंजूरी मांग रही है।

सदस्यों को डाक मतपत्र की सूचना का प्रेषण 14 फरवरी, 2024 को केवल उन सदस्यों को ईमेल द्वारा पूरा किया गया है जिनकी ईमेल आईडी एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) और डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और यह कंपनी की वेबसाइट https://www.indialease.com/PostalBallot.html बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव अंजलि यादव एंड एसोसिएट्स को स्क्रृटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं। कंपनी ने रिमोर्ट ई-वोटिंग द्वारा वोट करने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार, 09 फरवरी, 2024 को "कट ऑफ डेट" के रूप में तय किया है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्निजियात अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:-

रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत	गुरुवार, 15 फरवरी, 2024, 09:00 बजे आईएसटी
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति	शुक्रवार, 15 मार्च, 2024, 17:00 बजे आईएसटी
ईवीएसएन	240209002

श्क्रवार, 15 मार्च, 2024 को शाम 05:00 बजे के बाद ई—वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों को उसके बाद मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग स्विधा के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evotingindia.com पर उपलब्ध 'सहायता अनुभाग' के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई–वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को एक ईमेल लिख सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, सदस्य किसी भी प्रश्न / जानकारी के लिए कंपनी को info@indialease.com पर एक ई-मेल भी लिख सकते हैं।

पोस्टल बैलेट के परिणाम दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और बीएसई और सीडीएसएल को सुचित किए जाएंगे।

बोर्ड की आज्ञानुसार इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के लिए रोहित मदान

प्रबंधक, कंपनी सचिव और सीएफओ स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 14 फरवरी, 2024 एसीएस: 13636

DR. M. INDUSCORP LIMITED Regd. Office: 18B/1, Ground Floor, Dev Nagar, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005,

CIN: L01119DL1986PLC023698 Tel.: +91-11-28716806 Website: www.drminduscorp.com; Email:drmsoy@gmail.cor Extract of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31/12/2023 (Rs in Lakhs For Quarter Ended For Nine Months Ended For Year Ender 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 Particulars. Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 15.22 14.45 15.19 70.37 Total income from operations (Net) Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or 4.22 1.14 1.25 3.25 6.52 7.52 Extraordinary (tems) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and 4.22 1.14 1.25 3.25 6.52 7.52 /or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional 4.22 1.14 1.25 3.25 6.52 7.52 and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss] for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 7.52 Equity Share Capital *763.02 *763.02 *763.02 *763.02 *763.02 *763.02 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 0.00 0.00 0.00 0.00 (534.24)0.00

*The Share Capital includes amount of Rs. 7 Lacs against shares forfeited

B Earnings per share

a) The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on14/02/2024. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.drminduscorp.com), and on the website of Stock Exchange i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited.(www.msei.in). The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements

0.01

0.01

0.01

0.01

0.04

80.0

0.08

0.09

Regulations, 2015 has been completed and the related Report does not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter ended and Nine Months ended, 31/12/2023which needs to be explained. The figures of the previous period/year has been regrouped/recast wherever considered necessary, to conform to the current year classifications.

0.05

0.05

By the Order of the Board [PREM PRAKASH] Date: 14/02/2024 Managing Director

> जगत ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड CIN: L74999DL1982PLC014411 पंजीकृत कार्यालयः 208. मैग्नम हाउस-प. करमपुरा सामुदायिक केंद्र.

नई दिल्ली-110015, फोन: 011-45090162 ई-मेल आईडी: jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, वेबसाइट: www.jtel.co.in 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

> (रु. हजारों में, ईपीएस को छोड़कर) समाप्त पिछली समाप्त पिछला समाप्त चाल्

		तिमाही 31.12.2023 (अलेखापरीक्षित/ समीक्षित)	तिमाही 31.12.2022 (अलेखापरीक्षित/ समीक्षित)	वर्ष 31 03 2023 लेखा—परीक्षित
献	विवरणों			
1	परिचालन से कुल आय	17,905.00	1,443.97	8,069.89
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, विशेष और ध्या असाधारण भदें)	(21,441.58)	(1,402.78)	(6,875.89)
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशेष और / या असाधारण मर्दे के बाद)	(21,441.58)	[1,402.78]	(6,875.86)
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (विशेष और ध्या असाधारण मर्वे के बाद)	(21,851.86)	[1,461.32]	(6,429.45)
á	अवधि के लिए कुल व्यापक आय/अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाम/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद).	(21,693.59)	(1,412.61)	(6,485.48)
6	इक्विटी शेयर पूंजी	50,615,40	50,816,40	50,816,40
7	आरक्षितों (पिछले वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र में दिखाए गए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)%	62,386.68	66,672.37	62,385.88
8	प्रति शेयर आय (रु. 10 / — प्रत्येक का अकित मूल्य) (चालू और बंद परिचालन के लिए): (क): मूल (ख): बाइलूटड	(4.31) (4.31)	(0.28) (0.28)	(1.28) (1.28)

1. 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम को लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुशंसा के बाद 14 फरवरी, 2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 2. वैद्यानिक लेखा परीक्षकों ने संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के

विनियम 33 के अनुसार इन विलीय परिणामों की समीक्षा की है। 3. लेखांकन मानक -17 में परिभाषित 3 खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं है क्योंकि कंपनी एनबीएफसी व्यवसाय में लगी हुई

 उपरोक्त विवरण सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर आईइनढी एएस अनुपालन के अनुसार तिमाही और नौ माह के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। 31.12.2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.jtel.co.in और स्टॉक एक्सचेंज की

> कृते , जगत ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड (प्रवीण कुमार गोयल)

स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 14 फरवरी 2024

वेबसाइट, www.msei.in पर उपलब्ध हैं

डीआईएन : 00021153

नई दिल्ली

For JOHN OAKEY AND MOHAN LIMITED

www.readwhere.com

Place: New Delhi

(of Rs.10 each (not Annualised) Basic (Rs) Diluted (Rs) NOTES: The above is an extract of the detailed format of Quarterly And Nine Months ended December, 31, 2023 reults filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

Income(after tax)]

| Equity Share Capital

No.

Company's website at www.oakeymohan.in The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their respectivemeetings held on 14th February 2024

Date: 14th February, 2024